



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 64]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 22, 1977/वैशाख 2, 1899

No. 64]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 22, 1977/VAISAKHA 2, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

(Revenue Wing)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 22nd April 1977

NO. DRAWBACK/PN-16/77—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India—Extra-ordinary, dated the 25th August, 1971), The Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice, No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971 as amended from time to time :—

For Sub-Serial No. 1116 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

Sub-Sl. No	Description of goods	Rate of drawback
1116	Synthetic Detergents with active detergent of 18% or more	Rs. 775.00 (Rupees Seven hundred and seventy five only) per metric tonne of Synthetic detergent content.

NOTE.—The above rate of drawback is inclusive of drawback on packing materials.

2. This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 2nd day of November 1976.

C. D. RANGACHARI, Dy Secy.

राजस्व और बैंकिंग विभाग

(राजस्व पक्ष)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 1977

सं० प्रतिभ्रदायगी, सा० सू०/16, 77.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिभ्रदायगी नियमावली, 1971, (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52, फा० सं० 602/2, 70 प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन केन्द्रीय सरकार समय-समय पर यथासंशोधित सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिभ्रदायगी, सा० सू० 1, दिनांक 15 अक्टूबर 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उपक्रमांक 1116 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के लिये निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा, अर्थात् :—

उपक्रमांक	साल का विवरण	प्रतिभ्रदायनी की दर
1116.	18 प्रतिशत या उससे अधिक के सक्रिय अप-मार्जक युक्त सश्लिष्ट अपमार्जक ।	सश्लिष्ट अपमार्जक अन्तर्वस्तु के प्रति मीट्रिक टन पर 775.00 रु० (केवल सात सौ पचहत्तर रुपये)

टिप्पणी :—प्रतिभ्रदायगी की उपर्युक्त दर में पेकिंग सामग्री पर प्रतिभ्रदायगी भी शामिल है ।

2. यह सार्वजनिक सूचना नवम्बर 1976 के दूसरे दिन से लागू हुई समझी जायेगी ।

सी० डी० रंगाचारी, उप सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977